



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2545]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2545]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3062(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी के 170/000 कि.मी. से 186/750 कि.मी. तक के भूखण्ड (करौली-धौलपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-खण्ड अधिकारी, धौलपुर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी के 170/000 कि.मी. से 186/750 कि.मी. तक (करौली-धौलपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	धौलपुर	धौलपुर	(1) खनपुरा	33/1	सरकारी/निजी	बंजड़/बारानी सोयम	0.0368
				33	सरकारी/निजी	बंजड़/बारानी सोयम	0.8517
				4/2	सरकारी/निजी	गै. मु. बीहड़, बारानी सोयम चारागाह	0.1331
				32	सरकारी	गै. मु. आबादी	0.0138
				31	सरकारी	गै. मु. पाल	0.0597
				30	सरकारी	बंजड़	0.7093
				28	सरकारी	बंजड़	1.0312
				29	सरकारी	गै. मु. पाल	0.0731
			(2) सांदरा	919	निजी	बारानी सोयम	0.1072
				918	निजी	बारानी सोयम	0.0709
				899	निजी	बारानी सोयम	0.1336
				900	निजी	बारानी सोयम	0.0392
				901	सरकारी	बारानी सोयम	0.0483
				902	निजी	बारानी सोयम	0.0114
				897	निजी	बारानी सोयम	0.0118
				903	निजी	बारानी सोयम	0.3504
				920	निजी	बारानी सोयम	0.0712
				914	निजी	बारानी सोयम	0.2176
				913	निजी	बारानी सोयम	0.0341
				915	निजी	बारानी सोयम	0.2626
				917	निजी	बारानी सोयम	0.1296
				916	निजी	बारानी सोयम	0.0246
				888	निजी	बंजड़	0.0453
			(3) विशनोदा	1062	निजी	चाही सोयम	0.0085
				1069	निजी	बारानी दोयम	0.3963
				1070	निजी	नहरी दोयम	0.0814
				1071	निजी	नहरी दोयम	0.0746
				1072	निजी	नहरी दोयम	0.0180
				1073	निजी	बारानी दोयम	0.0517
				1075	निजी	बंजड़	0.0968
				1076	निजी	बारानी दोयम	0.0944
				1077	निजी	बारानी दोयम	0.2389
				1078	निजी	बारानी दोयम	0.1485
				1079	निजी	बारानी दोयम	0.0254
				1099	निजी	बंजड़	1.4976
				2098	सरकारी	चारागाह	0.9802
				2037	निजी	नहरी दोयम	0.1352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2024	निजी	नहरी दोयम	0.1147
				2025	निजी	बारानी प्रथम	0.0302
				2036	निजी	बारानी प्रथम	0.2058
				2035	निजी	चाही सोयम	0.2704
				2034	निजी	गै.मु.कुआ	0.0224
				2032	निजी	चाही सोयम	0.2040
				2057	निजी	जाब सोयम	0.0224
				2031	निजी	नहरी प्रथम	0.1075
				2033	निजी	चाही सोयम	0.0832
				2058	निजी	बारानी सोयम	0.2090
				2014	सरकारी	गै.मु.नहर	0.0603
				1961/2350	सरकारी/निजी	नहरी दोयम	0.1034
				1961/2348	सरकारी/निजी	नहरी दोयम	0.0848
				1961/2349	सरकारी/निजी	नहरी दोयम	0.0142
				1961	सरकारी/निजी	नहरी दोयम	0.0848
				1950	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.2363
				1949	निजी	बारानी प्रथम	0.0107
				1951	निजी	नहरी प्रथम	0.3246
				1938	निजी	चाही अलिफ	0.0016
				1937	निजी	चाही अलिफ	0.0483
				1952	निजी	चाही अलिफ	0.1099
				1923	निजी	चाही अलिफ	0.0138
				1924	निजी	चाही अलिफ	0.1280
				1925	सरकारी	गै.मु.कुआ	0.0448
				1926	निजी	चाही अलिफ	0.2056
				1927	निजी	चाही अलिफ	0.0354
				1916	निजी	चाही अलिफ	0.1443
				1918	निजी	चाही अलिफ	0.0299
				1919	निजी	चाही अलिफ	0.1880
				1920	निजी	चाही अलिफ	0.2126
				1921	निजी	चाही अलिफ	0.0042
				1912	निजी	चाही अलिफ	0.0891
				1913/2318	सरकारी	बारानी दोयम	0.4968
				1913	निजी	नहरी प्रथम	0.0061
				1914	सरकारी	बारानी दोयम	0.1202
				1915	सरकारी	गै.मु.नाला	0.2040
				1670	निजी	बारानी दोयम	0.0208
				1666	सरकारी	गै.मु.नाला	0.0206
				1665	निजी	चाही दोयम	0.1670
				1664	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.2538
				1663	निजी	चाही दोयम	0.0416
				1650	निजी	बारानी दोयम	0.2936
				1651	निजी	चाही दोयम	0.3570
				1652	निजी	चाही दोयम	0.1666
				1653	निजी	जाब दोयम	0.1736
				1656	निजी	जाब दोयम	0.0675
				1648	निजी	जाब दोयम	0.0390
				1649	निजी	चाही दोयम	0.0200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1228	सरकारी	गै. मु. डूंगरी, बारानी प्रथम चारागाह	5.3987
			(4) मिलकन	1003	निजी	बारानी सोयम	0.4813
				1004	निजी	बारानी सोयम	0.0370
				1005	निजी	बारानी सोयम	0.2259
				1006	निजी	बारानी सोयम	0.1643
				1007	सरकारी	बंजड़	0.0256
				1008	निजी	बारानी सोयम	0.0320
				1009	निजी	बारानी सोयम	0.5158
				1010	निजी	बारानी सोयम	0.2392
				1022	सरकारी/निजी	बंजड़/बारानी सोयम	1.6941
				1031	निजी	बारानी सोयम	0.1283
				1032	निजी	बारानी सोयम	0.0288
				1033	निजी	बारानी सोयम	0.3240
				1029	निजी	बारानी सोयम	0.3528
				1034	निजी	बारानी सोयम	0.6462
				1041	निजी	बारानी सोयम	0.1923
				1042	निजी	बारानी सोयम	0.5832
				1054	सरकारी	गै.मु.नाला	1.6864
				1052	निजी	बारानी सोयम	0.0021
				1038	निजी	बारानी सोयम	0.0450
			(5) गुन्नापुरा	1606	निजी	बारानी प्रथम	0.0389
				1605	निजी	बारानी दोयम	0.0274
				1603	निजी	बारानी दोयम	0.0157
				1598	निजी	बारानी दोयम	0.0174
				1595	निजी	बारानी दोयम	0.2803
			(6) मौरोलीपुरा	1238	निजी	बारानी दोयम	0.0194
				1236	निजी	बारानी दोयम	0.1008
				1235	निजी	बारानी दोयम	0.2570
				1234	निजी	बारानी दोयम	0.3086
				1233	निजी	बारानी दोयम	0.0403
				1230	निजी	बारानी दोयम	0.0021
				1231	निजी	बारानी दोयम	0.3899
				1258	सरकारी	गै.मु.नाला	0.1006
				1259	निजी	बारानी दोयम	0.4541
				1260	निजी	बारानी दोयम	0.2363
				1272	सरकारी	बारानी दोयम	0.1470
				1271	सरकारी	बारानी दोयम	0.0752
				1270	निजी	बारानी सोयम	0.3867
				1275	निजी	बारानी सोयम	0.1971
				1274	निजी	बारानी सोयम	0.0128
				1269	निजी	चाही सोयम	0.2435
				1264	निजी	बारानी सोयम	0.0034
				1268	निजी	गै.मु.कुआ	0.0029
				1267	निजी	बारानी दोयम	0.4075
				1266	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0309
				1265	निजी	बारानी सोयम	0.6531
				1284	निजी	बारानी सोयम	0.2192

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1285	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.1339
			(7) चांदपुर	467	निजी	बारानी दोयम	0.8117
				466	निजी	बारानी दोयम	0.2205
				465	निजी	बारानी दोयम	0.1934
				464	निजी	बारानी दोयम	0.4354
				462	निजी	बारानी दोयम	0.2317
				460	निजी	बारानी दोयम	0.0208
				461	निजी	बारानी दोयम	0.3994
				455	निजी	बारानी दोयम	0.3579
				454	निजी	बारानी दोयम	0.2050
				453	निजी	बारानी दोयम	0.2149
				452	सरकारी	गै.मु.तालाबी	0.2834
				445	निजी	चाही अलिफ	0.3166
				446	निजी	बारानी प्रथम	0.1125
				413	सरकारी/निजी	बारानी सोयम गै. मु. पहाड़	0.4890
				443	निजी	चाही प्रथम	0.0360
				444	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0848
				441	निजी	चाही अलिफ	0.1051
				442	सरकारी	गै.मु.कुआ	0.0029
				440	निजी	चाही अलिफ	0.0875
				438	सरकारी	गै.मु.कुआ	0.0043
				439	निजी	चाही अलिफ	0.0832
				437	निजी	चाही अलिफ	0.2189
				431	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.4480
				436	निजी	बारानी अलिफ	0.2363
				435	निजी	चाही प्रथम	0.1995
				434	सरकारी	गै.मु.कुआ	0.0181
				432	निजी	चाही प्रथम	0.0270
				433	निजी	चाही प्रथम	0.0466
				411	निजी	बारानी दोयम	0.1976
				412	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.3782
				410	सरकारी	गै.मु.पठार	0.1350
				414	निजी	बंजड़	0.3176
			(8) मिलगवा	606	निजी	बारानी सोयम	0.2421
				607	निजी	बारानी सोयम	0.0675
				605	निजी	बारानी सोयम	0.3720
				604	सरकारी	गै.मु.देवस्थान	0.1291
				603	निजी	बारानी सोयम	0.1029
				602	निजी	बारानी दोयम	0.5224
				601	निजी	बारानी दोयम	0.7179
				599	निजी	बारानी दोयम	0.2520
				600	सरकारी	बंजड़	0.0504
				596	निजी	बारानी दोयम	0.2048
				595	निजी	बारानी दोयम	0.2435
				594	निजी	बारानी दोयम	0.2307
				593	सरकारी	बारानी दोयम	0.1891
				592	निजी	बारानी दोयम	0.2021
				591	सरकारी	गै.मु.पहाड़	2.8096

2-6/1970381

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				590	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.5235
			(9) सूरजपुरा	531	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.1717
				532	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0141
				573	सरकारी	चारागाह	0.8763
				533	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.1552
				534	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.1515
				535	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0139
				530	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0186
				529	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.1403
				528	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0069
				511	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0101
				512	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0043
				513	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0358
				514	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0155
				515	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0062
				545	सरकारी	गै.मु. उद्योग क्षेत्र	0.0032
			(10) नरपुरा	747	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.0798
				748	सरकारी	गै.मु.पहाड़	1.3709
				749	सरकारी	चारागाह	0.4053
				750	सरकारी	चारागाह	0.0200
				751	निजी	बारानी सोयम	0.4238
				754	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.1155
			(11) पुरानी छावनी	175	सरकारी	बंजड़	0.0138
				176	निजी	बारानी सोयम	0.1194
				177	निजी	बारानी सोयम	0.0592
				178	निजी	बारानी सोयम	0.0118
				353	निजी	बंजड़	0.4720
				354	निजी	बारानी सोयम	0.0069
				182	निजी	बारानी सोयम	0.1024
				183	निजी	बारानी सोयम	0.0242
				180	निजी	बारानी सोयम	0.2674
				179	निजी	बारानी सोयम	0.1618
				352	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.4406
				194	सरकारी	चारागाह	0.0024
				195	निजी	बारानी सोयम	0.5203
				196	निजी	बारानी सोयम	0.5210
				197	सरकारी	गै. मु. नाला गै. मु. ईदगाह	0.0758
				241	निजी	बारानी सोयम	0.0018
				198	निजी	बारानी सोयम	0.4339
				200	निजी	बंजड़	0.3360
				201	निजी	बारानी सोयम	0.0590
				205	निजी	बारानी सोयम	0.0330
				202	निजी	बारानी सोयम	0.3752
				204	निजी	बारानी सोयम	0.0181
				224	निजी	बारानी सोयम	0.2347
				225	निजी	बारानी सोयम	0.2778
				227	निजी	गै.मु.रास्ता	0.0237

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				223	निजी	बारानी दोयम	0.3258
				222	निजी	बारानी दोयम	0.1947
				262	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.1171
				263	निजी	बारानी प्रथम	0.0325
				272	निजी	बारानी प्रथम	0.1162
				264	निजी	बारानी प्रथम	0.2029
				271	निजी	चाही प्रथम	0.0080
				265	निजी	बारानी प्रथम	0.1507
				266	सरकारी	बंजड़	0.0111
				267	सरकारी	गै.मु.कुआ	0.0016
				268	निजी	बारानी प्रथम	0.1725
				306	सरकारी	गै.मु.नाला	0.0594
				307	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.4379
				331	निजी	बारानी अलिफ	0.0337
				332	निजी	बारानी अलिफ	0.0632
				947	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0318
				946	सरकारी	गै.मु.नाला	0.0387
				945	निजी	बारानी प्रथम	0.1765
				330	निजी	बारानी अलिफ	0.0016
				308	सरकारी	बारानी अलिफ	0.0757
				309	निजी	बारानी अलिफ	0.0016
				310	सरकारी	बंजड़	0.0102
				311	निजी	बारानी अलिफ	0.0541
				943	निजी	बारानी प्रथम	0.1987
				941	सरकारी	नाला	0.1391
				940	निजी	बारानी प्रथम	0.1125
				312	निजी	बंजड़	0.0213
				938	निजी	बारानी प्रथम	0.2032
				933	निजी	बारानी प्रथम	0.2283
				932	निजी	बारानी प्रथम	0.3270
				934	निजी	बारानी प्रथम	0.0056
				930	निजी	बारानी प्रथम	0.0627
				931	निजी	बारानी प्रथम	0.1822
				929	निजी	बारानी प्रथम	0.0898
				928	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0885
				925	निजी	बारानी दोयम	0.1275
				927	निजी	बारानी दोयम	0.2101
				920	निजी	बारानी दोयम	0.1334
				926	निजी	बारानी दोयम	0.2806
				921	निजी	बारानी सोयम	0.2888
				919	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0494
				1009	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0789
				743	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0050
				753	निजी	बारानी दोयम	0.0016
				755	निजी	बारानी दोयम	0.1282
				756	निजी	बारानी सोयम	0.1797
				757	निजी	बारानी सोयम	0.1790
				778	निजी	बारानी दोयम	0.1126
				758	निजी	बारानी सोयम	0.1621

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				777	निजी	बारानी सोयम	0.1752
				761	निजी	बारानी सोयम	0.0827
				760	निजी	बारानी सोयम	0.1123
				759	निजी	बारानी सोयम	0.0963
				762	निजी	बारानी सोयम	0.2235
				763	निजी	बारानी सोयम	0.1472
				764	निजी	बारानी सोयम	0.0094
				765	निजी	बारानी सोयम	0.0502
				767	निजी	बंजड़	0.5122
				768	सरकारी	चारागाह	0.2496
				910	निजी	बारानी सोयम	0.0915
				911	निजी	बंजड़	0.0386
				902/2	निजी	बारानी प्रथम	0.0016
				908	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.1090
				901	निजी	बारानी प्रथम	0.2325
				897	निजी	बारानी प्रथम	0.2090
				898	निजी	बारानी प्रथम	0.0648
				896	निजी	बारानी प्रथम	0.0742
				895	निजी	बारानी सोयम	0.2010
				893	निजी	बारानी सोयम	0.0629
				894	निजी	बारानी सोयम	0.1971
				813	सरकारी	गै. मु. शमशान, गै. मु. रास्ता	0.6747
				849	निजी	गै.मु.कुआ	0.0157
				883	सरकारी	चारागाह	0.0654
				884	सरकारी	युवा आवास	0.2646
				1133/882	सरकारी	आबादी	0.4501
			(12) झोर	72/369	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.2114
				72	सरकारी	गै.मु.जंगल	0.9109
				413/72	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.6488
				414/72	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0027
				71	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0624
				70/398	सरकारी/निजी	बारानी सोयम, गै. मु. आवादी	0.2426
				70/3	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.8653
				69	निजी	कच्छार	0.3091
				431/68, 432/68	सरकारी/निजी	बारानी सोयम, गै. मु. आवादी	0.7528
				68/396	निजी	बारानी सोयम	0.1059
				68/394	निजी	बारानी सोयम	0.1120
				1/393	सरकारी/निजी	बारानी सोयम	0.1578
				1	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0062

[फा. सं. भाराप्र/25026/12/पीआईयू/बीटीपी/एलए]

माया प्रकाश, उप-सचिव



**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3062(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / two lane / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.11B on the stretch of land from Km.170/000 to Km.186/750 (Karauli - Dholpur Section) in District Dholpur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Dholpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

4850 46/12-3

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km.170/000 to Km.186/750 (Karauli - Dholpur Section ) of the National Highway No.11B in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (In hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dholpur	Dholpur	(1) Khanpura	33/1	Government/ Private	Banjar/Barani Soyam	0.0368
				33	Government/ Private	Banjar/Barani Soyam	0.8517
				4/2	Government/ Private	Ge.Mu. Behad, Barani Soyam, Charagah	0.1331
				32	Government	Ga. Mu.Awadi	0.0138
				31	Government	Ga. Mu.Pal	0.0597
				30	Government	Banjad	0.7093
				28	Government	Banjad	1.0312
				29	Government	Ga. Mu.Pal	0.0731
			(2) Sandra	919	Private	Barani Soyam	0.1072
				918	Private	Barani Soyam	0.0709
				899	Private	Barani Soyam	0.1336
				900	Private	Barani Soyam	0.0392
				901	Government	Barani Soyam	0.0483
				902	Private	Barani Soyam	0.0114
				897	Private	Barani Soyam	0.0118
				903	Private	Barani Soyam	0.3504
				920	Private	Barani Soyam	0.0712
				914	Private	Barani Soyam	0.2176
				913	Private	Barani Soyam	0.0341
				915	Private	Barani Soyam	0.2626
				917	Private	Barani Soyam	0.1296
				916	Private	Barani Soyam	0.0246
				888	Private	Banjad	0.0453
			(3) Vishnoda	1062	Private	Chahi Soyam	0.0085
				1069	Private	Barani Doyam	0.3963
				1070	Private	Nahari Doyam	0.0814
				1071	Private	Nahari Doyam	0.0746
				1072	Private	Nahari Doyam	0.0180
				1073	Private	Barani Doyam	0.0517
				1075	Private	Banjad	0.0968
				1076	Private	Barani Doyam	0.0944
				1077	Private	Barani Doyam	0.2389
				1078	Private	Barani Doyam	0.1485
				1079	Private	Barani Doyam	0.0254
				1099	Private	Banjad	1.4976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2098	Government	Charagah	0.9802
				2037	Private	Nahri Doyam	0.1352
				2024	Private	Nahri Doyam	0.1147
				2025	Private	Barani Pratham	0.0302
				2036	Private	Barani Pratham	0.2058
				2035	Private	Chahi Soyam	0.2704
				2034	Private	Ga.Mu. Kua	0.0224
				2032	Private	Chahi Soyam	0.2040
				2057	Private	Jav Soyam	0.0224
				2031	Private	Nahari Pratham	0.1075
				2033	Private	Chahi Soyam	0.0832
				2058	Private	Barani Soyam	0.2090
				2014	Government	Ga. Mu. Nahar	0.0603
				1961/2350	Government/ Private	Nahri Doyam	0.1034
				1961/2348	Government/ Private	Nahri Doyam	0.0848
				1961/2349	Government/ Private	Nahri Doyam	0.0142
				1961	Government/ Private	Nahri Doyam	0.0848
				1950	Government	Ga.Mu.Rasta	0.2363
				1949	Private	Barani Pratham	0.0107
				1951	Private	Nahari Pratham	0.3246
				1938	Private	Chahi Alif	0.0016
				1937	Private	Chahi Alif	0.0483
				1952	Private	Chahi Alif	0.1099
				1923	Private	Chahi Alif	0.0138
				1924	Private	Chahi Alif	0.1280
				1925	Government	Ga.Mu. Kua	0.0448
				1926	Private	Chahi Alif	0.2056
				1927	Private	Chahi Alif	0.0354
				1916	Private	Chahi Alif	0.1443
				1918	Private	Chahi Alif	0.0299
				1919	Private	Chahi Alif	0.1880
				1920	Private	Chahi Alif	0.2126
				1921	Private	Chahi Alif	0.0042
				1912	Private	Chahi Alif	0.0891
				1913/2318	Government	Barani Doyam	0.4968
				1913	Private	Nahari Pratham	0.0061
				1914	Government	Barani Doyam	0.1202
				1915	Government	Ga.Mu.Nala	0.2040
				1670	Private	Barani Doyam	0.0208

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1666	Government	Ga.Mu.Nala	0.0206
				1665	Private	Chahi Doyam	0.1670
				1664	Government	Ga.Mu.Rasta	0.2538
				1663	Private	Chahi Doyam	0.0416
				1650	Private	Barani Doyam	0.2936
				1651	Private	Chahi Doyam	0.3570
				1652	Private	Chahi Doyam	0.1666
				1653	Private	Jav Doyam	0.1736
				1656	Private	Jav Doyam	0.0675
				1648	Private	Jav Doyam	0.0390
				1649	Private	Chahi Doyam	0.0200
				1228	Government	Ge.Mu. Doongri,Barani Pratham,Charag ah	5.3987
			(4) Milkan	1003	Private	Barani Soyam	0.4813
				1004	Private	Barani Soyam	0.0370
				1005	Private	Barani Soyam	0.2259
				1006	Private	Barani Soyam	0.1643
				1007	Government	Banjad	0.0256
				1008	Private	Barani Soyam	0.0320
				1009	Private	Barani Soyam	0.5158
				1010	Private	Barani Soyam	0.2392
				1022	Government/ Private	Banjar/Barani Soyam	1.6941
				1031	Private	Barani Soyam	0.1283
				1032	Private	Barani Soyam	0.0288
				1033	Private	Barani Soyam	0.3240
				1029	Private	Barani Soyam	0.3528
				1034	Private	Barani Soyam	0.6462
				1041	Private	Barani Soyam	0.1923
				1042	Private	Barani Soyam	0.5832
				1054	Government	Ga.Mu. Nala	1.6864
				1052	Private	Barani Soyam	0.0021
				1038	Private	Barani Soyam	0.0450
			(5) Gunnapura	1606	Private	Barani Pratham	0.0389
				1605	Private	Barani Doyam	0.0274
				1603	Private	Barani Doyam	0.0157
				1598	Private	Barani Doyam	0.0174
				1595	Private	Barani Doyam	0.2803
			(6) Maurolipura	1238	Private	Barani Doyam	0.0194
				1236	Private	Barani Doyam	0.1008
				1235	Private	Barani Doyam	0.2570
				1234	Private	Barani Doyam	0.3086
				1233	Private	Barani Doyam	0.0403
				1230	Private	Barani Doyam	0.0021
				1231	Private	Barani Doyam	0.3899
				1258	Government	Ga.Mu. Nala	0.1006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1259	Private	Barani Doyam	0.4541
				1260	Private	Barani Doyam	0.2363
				1272	Government	Barani Doyam	0.1470
				1271	Government	Barani Doyam	0.0752
				1270	Private	Barani Soyam	0.3867
				1275	Private	Barani Soyam	0.1971
				1274	Private	Barani Soyam	0.0128
				1269	Private	Chahi Soyam	0.2435
				1264	Private	Barani Soyam	0.0034
				1268	Private	Ga.Mu. Kua	0.0029
				1267	Private	Barani Doyam	0.4075
				1266	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0309
				1265	Private	Barani Soyam	0.6531
				1284	Private	Barani Soyam	0.2192
				1285	Government	Ga.Mu.Rasta	0.1339
			(7) Chandpur	467	Private	Barani Doyam	0.8117
				466	Private	Barani Doyam	0.2205
				465	Private	Barani Doyam	0.1934
				464	Private	Barani Doyam	0.4354
				462	Private	Barani Doyam	0.2317
				460	Private	Barani Doyam	0.0208
				461	Private	Barani Doyam	0.3994
				455	Private	Barani Doyam	0.3579
				454	Private	Barani Doyam	0.2050
				453	Private	Barani Doyam	0.2149
				452	Government	Ga. Mu.Talabi	0.2834
				445	Private	Chahi Alif	0.3166
				446	Private	Barani Pratham	0.1125
				413	Government/ Private	Barani Soyam, Ge.Mu. Pahad	0.4890
				443	Private	Chahi Pratham	0.0360
				444	Government	Ga. Mu.Rasta	0.0848
				441	Private	Chahi Alif	0.1051
				442	Government	Ga. Mu.Kua	0.0029
				440	Private	Chahi Alif	0.0875
				438	Government	Ga. Mu.Kua	0.0043
				439	Private	Chahi Alif	0.0832
				437	Private	Chahi Alif	0.2189
				431	Government	Ga. Mu.Rasta	0.4480
				436	Private	Barani Alif	0.2363
				435	Private	Chahi Pratham	0.1995
				434	Government	Ga. Mu.Kua	0.0181
				432	Private	Chahi Pratham	0.0270
				433	Private	Chahi Pratham	0.0466
				411	Private	Barani Doyam	0.1976
				412	Government	Ga. Mu.Rasta	0.3782
				410	Government	Ga. Mu.Pathar	0.1350
				414	Private	Banjad	0.3176

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>(8) Bhilganva</b>	606	Private	Barani Soyam	0.2421
				607	Private	Barani Soyam	0.0675
				605	Private	Barani Soyam	0.3720
				604	Government	Ga. Mu.Devsthan	0.1291
				603	Private	Barani Soyam	0.1029
				602	Private	Barani Doyam	0.5224
				601	Private	Barani Doyam	0.7179
				599	Private	Barani Doyam	0.2520
				600	Government	Banjad	0.0504
				596	Private	Barani Doyam	0.2048
				595	Private	Barani Doyam	0.2435
				594	Private	Barani Doyam	0.2307
				593	Government	Barani Doyam	0.1891
				592	Private	Barani Doyam	0.2021
				591	Government	Ga. Mu.Pahad	2.8096
				590	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.5235
			<b>(9) Surajpura</b>	531	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.1717
				532	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0141
				573	Government	Charagah	0.8763
				533	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.1552
				534	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.1515
				535	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0139
				530	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0186
				529	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.1403
				528	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0069
				511	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0101

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				512	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0043
				513	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0358
				514	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0155
				515	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0062
				545	Government	Ga. Mu.Udhyog Chhetra	0.0032
			(10) Narpura	747	Government	Ga. Mu.Pahad	0.0798
				748	Government	Ga. Mu.Pahad	1.3709
				749	Government	Charagah	0.4053
				750	Government	Charagah	0.0200
				751	Private	Barani Soyam	0.4238
				754	Government	Ga. Mu.Pahad	0.1155
			(11) Purani Chhawani	175	Government	Banjad	0.0138
				176	Private	Barani Soyam	0.1194
				177	Private	Barani Soyam	0.0592
				178	Private	Barani Soyam	0.0118
				353	Private	Banjad	0.4720
				354	Private	Barani Soyam	0.0069
				182	Private	Barani Soyam	0.1024
				183	Private	Barani Soyam	0.0242
				180	Private	Barani Soyam	0.2674
				179	Private	Barani Soyam	0.1618
				352	Government	Ga.Mu.Rasta	0.4406
				194	Government	Charagah	0.0024
				195	Private	Barani Soyam	0.5203
				196	Private	Barani Soyam	0.5210
				197	Government	Ge.Mu.Nala, Ge.Mu. Idgaah	0.0758
				241	Private	Barani Soyam	0.0018
				198	Private	Barani Soyam	0.4339
				200	Private	Banjad	0.3360
				201	Private	Barani Soyam	0.0590
				205	Private	Barani Soyam	0.0330
				202	Private	Barani Soyam	0.3752
				204	Private	Barani Soyam	0.0181
				224	Private	Barani Doyam	0.2347
				225	Private	Barani Doyam	0.2778
				227	Private	Ga.Mu.Rasta	0.0237
				223	Private	Barani Doyam	0.3258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				222	Private	Barani Doyam	0.1947
				262	Government	Ga.Mu.Rasta	0.1171
				263	Private	Barani Pratham	0.0325
				272	Private	Barani Pratham	0.1162
				264	Private	Barani Pratham	0.2029
				271	Private	Chahi Pratham	0.0080
				265	Private	Barani Pratham	0.1507
				266	Government	Banjad	0.0111
				267	Government	Ga.Mu.Kua	0.0016
				268	Private	Barani Pratham	0.1725
				306	Government	Ga.Mu. Nala	0.0594
				307	Government	Ga.Mu.Rasta	0.4379
				331	Private	Barani Alif	0.0337
				332	Private	Barani Alif	0.0632
				947	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0318
				946	Government	Ga.Mu. Nala	0.0387
				945	Private	Barani Pratham	0.1765
				330	Private	Barani Alif	0.0016
				308	Government	Barani Alif	0.0757
				309	Private	Barani Alif	0.0016
				310	Government	Banjad	0.0102
				311	Private	Barani Alif	0.0541
				943	Private	Barani Pratham	0.1987
				941	Government	Nala	0.1391
				940	Private	Barani Pratham	0.1125
				312	Private	Banjad	0.0213
				938	Private	Barani Pratham	0.2032
				933	Private	Barani Pratham	0.2283
				932	Private	Barani Pratham	0.3270
				934	Private	Barani Pratham	0.0056
				930	Private	Barani Pratham	0.0627
				931	Private	Barani Pratham	0.1822
				929	Private	Barani Pratham	0.0898



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				928	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0885
				925	Private	Barani Doyam	0.1275
				927	Private	Barani Doyam	0.2101
				920	Private	Barani Doyam	0.1334
				926	Private	Barani Doyam	0.2806
				921	Private	Barani Soyam	0.2888
				919	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0494
				1009	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0789
				743	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0050
				753	Private	Barani Doyam	0.0016
				755	Private	Barani Doyam	0.1282
				756	Private	Barani Soyam	0.1797
				757	Private	Barani Soyam	0.1790
				778	Private	Barani Doyam	0.1126
				758	Private	Barani Soyam	0.1621
				777	Private	Barani Doyam	0.1752
				761	Private	Barani Doyam	0.0827
				760	Private	Barani Doyam	0.1123
				759	Private	Barani Soyam	0.0963
				762	Private	Barani Doyam	0.2235
				763	Private	Barani Doyam	0.1472
				764	Private	Barani Doyam	0.0094
				765	Private	Barani Doyam	0.0502
				767	Private	Banjad	0.5122
				768	Government	Charagah	0.2496
				910	Private	Barani Soyam	0.0915
				911	Private	Banjad	0.0386
				902/2	Private	Barani Pratham	0.0016
				908	Government	Ga.Mu.Rasta	0.1090
				901	Private	Barani Pratham	0.2325
				897	Private	Barani Pratham	0.2090
				898	Private	Barani Pratham	0.0648
				896	Private	Barani Pratham	0.0742
				895	Private	Barani Soyam	0.2010
				893	Private	Barani Soyam	0.0629
				894	Private	Barani Soyam	0.1971
				813	Government	Ge.Mu.Samshan , Ge.Mu. Rasta	0.6747
				849	Private	Ga.Mu.Kua	0.0157
				883	Government	Charagah	0.0654
				884	Government	Yuva Aawas	0.2646
				1133/882	Government	Aawadi	0.4501

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(12) Jhor	72/369	Government	Ga.Mu.Aawadi	0.2114
				72	Government	Ga.Mu.Jangle	0.9109
				413/72	Government	Ga.Mu.Aawadi	0.6488
				414/72	Government	Ga.Mu.Aawadi	0.0027
				71	Government	Ga.Mu.Rasta	0.0624
				70/398	Private/Government	Barani Soyam, Ge.Mu. Aawadi	0.2426
				70/3	Government	Ga.Mu.Aawadi	0.8653
				69	Private	Kachhar	0.3091
				431/68, 432/68	Private/Government	Barani Soyam, Ge.Mu. Aawadi	0.7528
				68/396	Private	Barani Soyam	0.1059
				68/394	Private	Barani Soyam	0.1120
				1/393	Govt./ Private	Barani Soyam	0.1578
				1	Government	Ga.Mu.Aawadi	0.0062

[F. No. NHAI/25026/12/PIU/BTP/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.